



MEGASOFT LIMITED
CIN: L22000MH1999PLC042738
Registered Office: #95, Kothary Road, Mysore,
Chennai, TN, India - 600 004. Phone: +91-44-24616158
Fax: +91-44-24617015. Email: investors@megasoft.com
Website: www.megasoft.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday the 05th day of May, 2021** *inter alia* to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements and Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2021.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.megasoft.com> and may also be accessed on the Stock Exchange Websites at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>

For MEGASOFT LIMITED
Sd/-
Date: 27th April, 2021 Shridhar Thathachary
Place: Hyderabad Chief Financial Officer

PUBLIC NOTICE

(In accordance with RBI Circular No. RBI/2015-16/122 DNBR (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16 dated July 09, 2015)

Avanti Microfinance Private Limited

Registered Office: No. 456, Ground 1st & 2nd Floor, 4th Block, BDA Layout, Kormangala Extension, Kormangala, Bengaluru 560034, India
Tel: +91-080-41689310 |
Email: manish.thakkar@avantimfin.in |
Web: www.avantimfin.in |
CIN: U65929KA2016PTC138292

1. Avanti Microfinance Private Limited ('the Company') is a private limited company incorporated under the Companies Act, 2013 bearing CIN U65929KA2016PTC138292 and having its registered office at No. 456, Ground 1st & 2nd Floor, 4th Block, BDA Layout, Kormangala Extension, Kormangala, Bengaluru 560034.

2. The Company is also registered with Reserve Bank of India (RBI) as a Non-Banking Financial Company - Microfinance Institution (NBFC-MFI) vide certificate of registration bearing no. N-13.02194 dated July 11, 2017 which is not valid for accepting public deposits. The Company has not raised or accepted any public deposits till date.

3. The paid-up share capital of the Company is INR 11,25,00,000 (Indian rupees eleven crore and twenty five lakh only) comprising of 1,12,50,000 (One crore, twelve lakh and fifty thousand) equity shares having a face value of INR 10 (Indian rupees ten) each.

4. Mr. Ratan Naval Tata, is a major shareholder of the Company holding 89,99,980 (Eighty nine lakh, ninety nine thousand, nine hundred and eighty) equity shares representing 80% (Eighty per cent) of the total paid-up share capital of the Company. NRJN Family Trust ('Trust') through its trustee Entrust Family Office Legal & Trusteeship Services Pvt. Ltd. holds 22,50,010 (Twenty two lakh, fifty thousand and ten) equity shares representing 20% (Twenty per cent) of the total paid-up share capital of the Company.

5. For the purpose of raising further funds for its business activities, including onward lending and general corporate purposes, the Company proposes to issue 32,66,107 (Thirty two lakh, sixty six thousand, one hundred and seven) equity shares amounting to INR 3,26,61,070 (Indian rupees three crore twenty-six lakh sixty-one thousand and seventy) of the share capital of the Company to NRJN Family Trust through its trustee Entrust Family Office Legal & Trusteeship Services Pvt. Ltd. in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder (Proposed Issuance).

6. On account of the Proposed Issuance, assuming full tender, acceptance and completion of all formalities, the Trust will hold 55,16,117 (Fifty five lakh, sixteen thousand, one hundred and seventeen) equity shares representing 38% (Thirty eight per cent) of the paid-up share capital of the Company effecting the Trust to hold more than 26% of the paid-up share capital of the Company.

7. Immediately upon completion of Proposed Issuance, the Company proposes a transfer of all 1,45,16,107 (One crore forty-five lakh, sixteen thousand one hundred and seven) equity shares amounting to INR 14,51,61,070 (Indian Rupees fourteen crore, fifty-one lakh, sixty-one thousand and seventy) of the share capital of Company from the shareholders of Company to Avanti Finance Private Limited ('AFPL'), a private limited company registered as a non-banking finance company ('NBFC') with the RBI by a certificate of registration dated June 23, 2017 bearing registration number No. N.13.02191 and having its registered address at No. 456, Ground 1st & 2nd Floor, 4th Block, BDA Layout, Kormangala Extension, Kormangala, Bengaluru - 560034 Karnataka, India.

8. In terms of RBI Circular No. DNBR (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16 dated July 09, 2015, the Company had made an application to the regional office of RBI, Department of Non-Banking Supervision, Mumbai on January 04, 2021 seeking approval of RBI for change in shareholding and control of the Company. The RBI vide its letter dated April 22, 2021 conveyed its approval to the proposed change in control of the Company.

9. Notice is hereby given that any person whose interest is likely to be affected by the Proposed Issuance to the Trust and consequent acquisition by AFPL, may intimate in writing to the regional office of the RBI Department of Supervision, Mumbai and also to the Company at its registered office within 30 days from the publication of this notice stating therein the nature of interest and ground for objection.

10. This notice is being given pursuant to the Non-Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions 2015 issued vide Notification No. RBI Circular No. DNBR (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16 dated July 09, 2015 and other relevant regulations, jointly by the Company and NRJN Family Trust.

For Avanti Finance Private Limited
Ms. Urvasi P. Bahirsheth
ACS 37475
Company Secretary
For Avanti Microfinance Private Limited
- the Company
Mr. Sushil Thaker
ACS 58600

NOTICE

Late Mrs. SULOCHANA KESHA PATAVAN, was the owner of Flat No. 304, Third floor, Wing D, Svarohi Kulkarni Co-op Hsg. Soc. Ltd., represented by share certificate 65, starting from 321 to 325, situated at Survey No. 326 (P), Hissa No. (P) & 1 (P) of village Virar, Tal. Vasai, Dist. Palghar.

Mrs. SULOCHANA KESHA PATAVAN expired on 14/01/2015 and the society transferred the shares of the said flat in the name of Mr. SUDHIR KESHA PATAVAN. Claims / Objections are also invited from the heir or heirs or other claimants/ Objector or objections to the Transfer of the said Shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 14 days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society, or to us at the below mentioned address. If no claims/objections are received within the period prescribed above, the shares and interest of the deceased member in the Capital/property of the society and title of the said property shall be transferred and construed to be clear in the name of Mr. SUDHIR KESHA PATAVAN.

Adv. Parag J. Pimple
S/4, Pravin Palace, Pt. Dindayal Nagar, Vasai Road (W), Tal. Vasai, Dist. Palghar
Mob: 9890079352
Place: Vasai Date: 29/04/2021

APOLLO PIPES LIMITED
CIN: L65999DL1985PLC022723
Registered Office : 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092
Corporate Office: Plot No. A-140, Sector-136, Noida-201301
Phone No: 0120 6587777
Email: compliance@apollopipes.com
Website: www.apollopipes.com

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 04th day of May, 2021, to *inter alia* consider the following business:

- to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended 31st March 2021; and
- any other matter as may be considered appropriate by the Board.

Further please note that in accordance with Code of internal procedures and conduct for regulating, monitoring and reporting of trading by Insiders and pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the Equity Shares of the Company is already closed from 01st April, 2021 and shall re-open on 07th May, 2021.

By order of the Board of Directors
For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Date : 28th April, 2021 Ankit Sharma
Place : Noida Company Secretary



CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED
CIN No. L67190MH1995PLC084306
Regd. Office: 4th Floor, Dalamal House, J B Marg, Nariman Point, Mumbai-400021
Tel No: 022-2285 3910/11,
Fax No: 022-22825753
Website: www.coralhousing.in
Email: cs@coralhousing.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, May 05, 2021 *inter alia* to consider and approve the Audited Standalone Financial Results of the company for the quarter and year ended March 31, 2021.

The Copy of notice is also available on the website of the Stock Exchanges, BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the Company's shares are listed and on the Company's website (www.coralhousing.in).

We further inform that the trading window for dealing in securities of the Company has been closed for designated employees/insiders from April 01, 2021 till the close of trading hours of Friday, May 07, 2021.

For Coral India Finance and Housing Limited
Sd/-
Riya Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Date: April 28, 2021
Place: Mumbai

Business Standard
MUMBAI EDITION

Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private Limited and Printed at M/s. Dangat Media Private Limited, 22 Digha M.J.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai, 400708 and M/s. Nai Dunia 23/4, 23/5, Sector-D, Industrial Area, J.K. Road, Near Minal Residency, Bhopal (M.P.)-462023 & Published at H/4 & U/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, PB Marg, Worli, Mumbai- 400013

Editor : Shyamal Majumdar

RNI No: 66308/1996

Readers should write their feedback at feedback@bmail.in
Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & U/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, PB Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: subs_bs@bmail.in
"or sms, REACHBS TO 57575

Overseas subscription:
(Mumbai Edition Only)

One year subscription rate by air mail
INR 51765/- USD 725

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redistribution of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.



M.P. ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Govt. of M.P. Undertaking)
45-A, Arera Hills, Bhopal – 462 011
Phone : 0755-2527290, 2765205, Fax : 0755-2572643
Website : www.mprdc.gov.in, CIN : U45203MP2004SGC016758
NIT No. 799/499/MPRDC/Procu/BB/2021 **Date : 27/04/2021**


NOTICE INVITING TENDERS

Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited (MPRDC) Bhopal invites proposal for user fee Collection at 11 Mile (at Km 1+200) & Mubarakpur Toll Plaza (at Km 42+00) for the section from 0.00 to Km. 52.00 (Existing Chainage) on Bhopal Bypass in the State of Madhya Pradesh.


SN.	Division	Annual Potential Collection (APC) (in Crore)	Bid Security (in Rs. lakh)	Cost of RFP Document (In Rs. Thousand)	Period of Service (In Months)
1.	User fee Collection at 11 Mile (at Km 1+200) & Mubarakpur Toll Plaza (at Km 42+00) for the section from 0.00 to Km. 52.00 (Existing Chainage) on Bhopal Bypass in the State of Madhya Pradesh	40.00	20.00	50.00	12 Months

The dates for purchase, submission, etc. are mentioned in the key dates. Tender forms can be purchased online upto **11:30 hrs. on 31.05.2021** from website www.mptenders.gov.in. The bidders have to submit the Technical bid as well as Financial Bid online only. The Addendum/Corrigendum (if any) shall only be published on the website of www.mptenders.gov.in in only. If holiday is declared by Govt. of M.P. on the date of opening, the same will automatically be shifted to subsequent working days. MPRDC reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason thereof. M.P. Madhyam/100653/2021

Managing Director



NATIONAL WATER INFORMATICS CENTRE
Department of Water Resources, RD & GR
Ministry of Jal Shakti
4th Floor (S), Sewa Bhawan, R K Puram-1 Delhi-110066, India



Request for Proposals (RFP) for “Hiring of MeitY empaneled cloud service provider for hosting of WIMS”

Following Request for Proposals (RFP) has been invited by National Water Informatics Centre (NWIC) under National Hydrology Project from eligible bidders.

RFP	Concerned Officer	Important Date
National Competitive Bidding (NCB): Hiring of MeitY empaneled cloud service provider for hosting of 'WIMS' (IFB No: RFP/NWIC/2021/WIMS/Cloud/3)	Deputy Director, NWIC, 4 th Floor (S), Sewa Bhawan, R K Puram, Sector-1, New Delhi- 110066 Tel: (91-11) 29583273 Email: ddsu1-nwic mowr@gov.in	Start date of download Publication Date (20/04/2021), 09:00 Hrs (IST) Last date of Submission May Refer to E Procurement Tender ID 2021_NWIC_624736 Date of Pre-bid meeting May Refer to E Procurement Tender ID 2021_NWIC_624736

Interested bidders may view and download the Request for Proposal containing the detailed terms and condition free of cost from the website <http://eprocure.gov.in>. Detailed invitation for Bid along with document confirming compliance should be submitted by prospective bidders online only at e-procurement website <http://eprocure.gov.in> as date mentioned above.

(Director)
National Water Informatics Centre

45122/11/0001/2122



SKY INDUSTRIES LIMITED
(CIN: L17120MH1989PLC052645)
Registered Office: C - 58 TTC Industrial Area, Thane Belapur Road, Pawane, Navi Mumbai - 400 705
Corporate Office: 1101 Universal Majestic, Ghatkopar Mankhurd Link Road, Chembur(West) Mumbai 400043.
Email: corporate@skycorp.in; **Website:** www.skycorp.in; **Tel:** 022-67137900

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(Rs. In Lac)


SN	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Income from Operations	1835.82	1749.41	1564.44	5383.06	5935.77
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, exceptional items	112.16	167.10	25.40	232.35	117.87
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax after exceptional items	112.16	75.05	(60.49)	140.30	31.97
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	76.72	34.43	(63.54)	79.91	31.99
5	Total Comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax]	76.72	34.43	(63.54)	79.91	31.99
6	Reserves as shown in Audited Balance Sheet	-	-	-	2013.19	1680.00
7	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	5548745	5107969	4836400	5548745	4836400
8	Earnings per equity share					
1.	Basic	1.46	0.71	(1.35)	1.61	0.62
2.	Diluted	1.40	0.71	(1.35)	1.56	0.61

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial results for the Quarter & Year ended March 31, 2021 are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com & on companies website i.e. www.skycorp.in.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meeting held on April 27, 2021.
- The Board of Directors has recommended the final Dividend of Re. 1/- per Equity Shares of face value of Rs. 10/- each for the Financial Year ended March 31, 2021, subject to the approval of the Members of the Company at the ensuing Annual General Meeting.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2016.

Mumbai
April 28, 2021

SD/-
Maikail Raorani
Whole Time Director & CFO



MAHAGENCO
Maharashtra State Power Generation Co. Ltd.

E-Tender Notice


Chandrapur Super Thermal Power Station MAHAGENCO, invites Proposals from reputed and experienced Companies to Participate in the Competitive bidding Process to following Tenders.

S.N.	Tender No. (Rfx No.) / Description / Estimated Cost in Rs.
1	3000018410 / Work of HP Parts repairs in Furnace (First Pass), Div. Panel, Pl. SH, Front & Rear RH of Boiler Unit-9 (2x500MW) during Annual Overhaul at CSTPS, Chandrapur. / Rs. 7832377/-
2	3000018202 / Work of Cleaning of Hot Water Basin of Cooling Tower 6A & 6B during Unit-6 overhaul Period at ODP-II, CSTPS, Chandrapur. / Rs. 245011.76
3	3000018413 / Tender requisition for Nitrogen gas Cylinder Supply with Works at CSTPS, Chandrapur. / Rs. 284965/-
4	3000018319 / Supply, Installation, Commissioning & Testing of Polycarbonate Electrical Panels for lighting Panel at Unit-8&9, CSTPS, Chandrapur. / Rs. 4912646/-
5	3000018403 / Technical Audit of Electrical Earthing System at 500MW CSTPS, Chandrapur. / Rs. 5994790.50
6	3000018458 / Work of repair of Hot Air Duct & Flue Gas Duct from Economizer outlet to stack inlet of unit 5,6 & 7 during short shutdown. / Rs. 1203400/-
7	3000018457 / Supply of complete modified air port ring assembly for HPMS in coal mill XRP 1043 in unit 5 & 6. / Rs. 2920000/-
8	3000018456 / Procurement of raw coal feed pipes for 36" volumetric coal feeder for XRP 1043 coal mill in unit 5 & 6 at CSTPS, Chandrapur. / Rs. 2066640/-
9	3000018454 / Work of internal inspection and repair of Steam line strainers during Annual overhaul of Unit-6 and as & when required basis. / Rs. 2159990/-
10	3000018381 / Work of Painting of control Panels, control desk, UCP etc during unit-4 overhaul. / Rs. 179235/-
11	3000018421 / AMC of operation and maintenance of 1MWp Solar Plant for CSTPS Chandrapur. / Rs. 1914054/-

above floated tender published in MAHAGENCO online Portal. For the detailed Tender document, interested bidders should visit SRM Website <https://eprocurement.mahagenco.in> for (Sr.No.1 to 11).

For any query Contact No.: 8554991818.

SD/-
Chief Engineer (O&M) CSTPS, Chandrapur



DSP
MUTUAL FUND

NOTICE

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of the DSP Mutual Fund ('Fund') that in accordance with Regulation 59 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, a soft copy of the Half Yearly Unaudited Financial Results of all the schemes of the Fund for the half year ended March 31, 2021 has been hosted on the website of the Fund viz. www.dspim.com. Investors may accordingly view/download the results of the schemes of the Fund from the website.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to:
DSP Investment Managers Private Limited ("AMC")
CIN: U74140MH1996PTC099483
Investment Manager for DSP Mutual Fund
Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181
Toll Free No: 1800 200 4499, www.dspim.com

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email id, mobile number and nominee details with the AMC.

Place: Mumbai
Date: April 28, 2021

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



navi mutual fund

NAVI AMC LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ESSEL FINANCE AMC LIMITED)
Registered Office: Peerless Mansion, 1, Chowringhee Square, Kolkata - 700 069.
Tel: 033-40185000; **Fax:** 033-40185010; **Toll free no.:** 1800 103 8999,
Website: www.navimutualfund.com, **E-mail:** mf@navi.com
CIN: U65990WB2009PLC134537

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 5 of 2021-2022)

Unitholders of the Schemes of Navi Mutual Fund ("the Fund") is requested to note the following:

- Mr. Pradeep Sukte has ceased to be the Fund Manager of Navi Arbitrage Fund & Equity Dealer and Key Personnel of the Navi AMC Limited ("the AMC") with effect from April 23, 2021. Accordingly, all references of Mr. Pradeep Sukte from Statement of Additional Information (SAI) of Navi Mutual Fund stands deleted.
- Mr. Saravana Kumar, Chief Investment Officer of Navi Mutual Fund has been appointed as Fund Manager of Navi Arbitrage Fund w.e.f. April 26, 2021. The details of Mr. Saravana Kumar as appearing in Statement of Additional Information of Navi Mutual Fund will remain same.

All references of Mr. Pradeep Sukte shall be replaced by Mr. Saravana Kumar in the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Navi Arbitrage Fund.


This notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the scheme of Navi Mutual Fund and SAI of Navi Mutual Fund.

All other terms and conditions of the SID and KIM of the scheme of the Navi Mutual Fund and SAI of the Navi Mutual Fund shall remain unchanged.

For Navi AMC Limited
(formerly Essel Finance AMC Limited)
(Investment Manager to Navi Mutual Fund)
(formerly Essel Mutual Fund)
Sd/-
Authorized Signatory

Place : Mumbai
Date : April 28, 2021

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED
CIN: L29224TN1954PLC000318
Registered Office: 'Pary House', No.43, Moore Street, Chennai - 600 001
Tel: +91-44-30006161 Fax: +91-44-30006149;
Email: investorservices@cumi.murugappa.com Website: www.cumi-murugappa.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Sl. No	Particulars	(₹ in Lakhs)		
		Quarter ended Audited Refer Note no:10 31.03.2021	Year ended Audited 31.03.2021	Quarter ended Audited Refer Note no:10 31.03.2020
1.	Total income from Operations	75657	263171	59397
2.	Net profit for the period before exceptional item, tax, non-controlling interests and profit from joint ventures and associate.	14013	39394	10510
3.	Net profit for the period after exceptional item, tax, non-controlling interests and profit from joint ventures and associate.	9053	28431	9233
4.	Total Comprehensive Income for the period after non-controlling interests [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8114	29708	(225)
5.	Equity Share Capital	1896	1896	1894
6.	Reserves excluding revaluation surplus		211014 (as of 31st March 2021)	
7.	Earnings per share (Face value of Re.1/- each) - not annualised			
- Basic		4.78	15.01	4.88
- Diluted		4.77	14.99	4.87

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Company: www.cumi-murugappa.com and Stock Exchanges: www.bseindia.com & www.nseindia.com.
- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings, held on April 28, 2021. The consolidated financials include the financial statement of the subsidiaries, associate and joint ventures duly audited by respective statutory auditors.
- The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs.1.50 per share (on face value - Re.1 per share). An interim dividend of Rs.1.50 per share was declared at the meeting of the Board of Directors held on February 02, 2021 and the same has been paid.
- During the current quarter, the Company has allotted 125,513 equity shares pursuant to exercise of Employee Stock Options.
- Summary of Key Standalone Audited Financial Results is as follows:

Particulars	Quarter ended Audited Refer Note no:10 31.03.2021	Year ended Audited 31.03.2021	Quarter ended Audited Refer Note no:10 31.03.2020
	Total income from Operations	50942	167228
Profit before Tax	8057	24446	7456
Profit after Tax	5752	18397	6241
Total Comprehensive income	5733	19135	4858

- The step down subsidiary M/s. Foskor Zirconia Pty Limited, South Africa [FZL] has incurred a loss of Rs.1051 Lakhs for the year ended March 31, 2021. Out of this Rs.536 Lakhs has been considered in the Group consolidated financials, being share of the Parent. The Board of FZL is monitoring the business performance and will initiate suitable measures in due course.
- Exceptional item (net) comprise of Rs.2492 Lakhs towards fair value changes of a Financial instrument availed by a step down subsidiary and is net of Profit of Rs.1052 Lakhs on divestment of partial stake investments in an Associate, to comply with the Minimum Public shareholding requirement under the SEBI provisions.
- In July 2020, the Company's wholly owned step down subsidiary, M/s. Thukela Refractories Isithebe Pty Limited, South Africa (TR), (subsidiary of M/s. CUMI International Limited, Cyprus) ceased to be a step down subsidiary of the Company consequent to the approval of its voluntary de-registration by the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), South Africa.
- Impact of COVID 19 Pandemic
The Covid 19 pandemic is unprecedented and measures to contain it has caused significant disturbances and slow down of economic activity. The Group's operations & financial results for the first quarter have been adversely impacted due to scaling down / suspension of operations across all plants due to supply chain constraints, shortage of workforce and various safety measures taken across all areas of operations.
The operations were resumed gradually and has revived at a better pace as the year progressed. The Group has relied on the available information and assumptions, as at the date of approval of these financial results, to arrive at its estimates. The Group continues to monitor the economic effects of the pandemic while taking steps to improve its execution efficiencies and the financial outcome.
- The figures for the quarters ended March 31, 2021 and March 31, 2020, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures upto the third quarter of the relevant financial year.

Chennai
April 28, 2021

For Carborundum Universal Limited
M.M. Murugappan
Chairman

स्वबारों में रहे स्टॉक

एफिसस बैंक

चौथी तिमाही में 2,677 करोड़ रुपये का लाभ

₹ 699.3 पिछला बंद भाव
₹ 707.9 आज का बंद भाव

▲ 1.2 %

बजाज फिनसर्व को 979 करोड़ रुपये का मुनाफा

अनुपम रसायन ने बुधवार को कहा कि उसे जीवन बदलाव किया
विज्ञान संबंधी विशेष रसायनों की आपूर्ति के लिए मॉन्टेनस प्रक्रिया
1,100 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं। कंपनी को को जून से पहलू
जीवन विज्ञान से संबंधित विशेष रसायनों की बीच बंद करेगा
आपूर्ति के लिए शीर्ष 10 बहुराष्ट्रीय लाइफ साइंस कहा है कि वह
कंपनियों से 1,100 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं। के लिए आंशिक
कंपनी ने कहा कि इन ठेकों के तहत वह अगले समर्थन करने
पांच वर्षों तक बहुराष्ट्रीय कंपनी को कई उत्पादों की मारुति सुजुको
आपूर्ति करेगी। एक प्रेस विज्ञापन

कंपनी अमेरिका में ईयूए हासिल करने के लिए दायर डेटा के आधार पर भारत में भी मंजूरी हासिल करना चाहती है। इसके अलावा उसने यूरोपीय संघ में कमेट्री फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज (सीएचएमपी) की वैज्ञानिक राय का भी हवाला दिया है।

बीएस

इस्पात उत्पादन में कटौती की कीमत पर भी ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ने की कोशिश कर रही है। प्राथमिक इस्पात उत्पादक ऐसे समाधान तलाश रहे हैं जिन्हें कम से कम समय में हासिल किया जा सके।

सज्जन जिनंद के नियंत्रण वाली कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने

बिजनेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा
द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301,
उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4 बलुवर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक: केलाश नौदियाल

आरएनआई नं० WBMIN/2008/24333

पाठक संपादक को lettershin@bsm.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22210131/1022/1600 फैक्स- 033-222101599
सबरिक्खान और सुकुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें..

सुश्री मानसी सिंह
हैड कस्टमर रिलेशन्स

बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिडिंग्टन एव,
पैरागान पर, चण्डी न्यूटन के सामने, पी वी मार्ग, नवीं, मुंबई, 400 013
ई मेल.. sbs_bsm@bsm.in
या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS

डिस्कलेमर: स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से
बाजारों, कॉर्पोरेट जनत और सरकार से जुड़ी कदमों की विमर्श तत्परि पेक्ष करने का
प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के विमर्श एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के
कारण वास्तविक प्रवृत्तमान भिन्न हो सकते हैं। समाचार एवं प्रकाशित रिपोर्टों के
आधार पर वाचने में त्रुटि किए जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड लेखों वाले कारोबारियों के लिए
बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं विमर्श लेने की अपेक्षा
की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सदस्यों में रवीकर जकात जाते हैं। इनके
साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से
संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मैग बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा। लि० का सवाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा। लि० से
लिखित अनुमति बिना वगेर समाचार एवं प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी
तरह प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक विकाय द्वारा
इस तरह का बिखिड़ एवं अनधिकृत कार्य करने पर दायीन और फौजदारी कार्यवाही शुरू

न कंपनियों का अ

जरूरतों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्ध


प्रैल



झड़ी कार निर्माता है कि वह विभिन्न ऑक्सीजन बनाने वाले के लिए सालाना बंद के समय में । कंपनी अब इस तहत अपने संयंत्रों ही 1 से 9 मई के मारुती जीनकारी ने गोगों की जान बचाने प पहुंचाने में सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। की ओर से जारी कहा गया है, ‘कार निर्माण प्रक्रिया के तहत, मारुती सुजुकी सामान्य तौर पर अपनी फैक्ट्रियों में छोटी मात्रा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, जबकि कल्पुर्जा निर्माताओं द्वारा इसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। हमारा मानना ​​है कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण हालात में, सभी उपलब्ध ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल की जान चाहिए।' कंपनी ने जानकारी दी है कि सुजुकी मोटर गुजरात ने भी अपने संयंत्र के लिए इसी तरह परिणय लिया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में मारुती चिकित्सक गैस नहरिया बंद इन्फ्रास्ट्रक्चर कोड़ो हैं। कंठों मुख्य मुख् ऑक्सेन और मदद में सर एचएन चिकि

रोजाना 1,000 टन तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी है और अप्रैल 2021 के दौरान तरल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति 20,000 टन से अधिक होने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा, 'जेएसडब्ल्यू स्टील इस संकट काल में लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने देश के हित में तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।' रविवार को जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि एलएमओ की आपूर्ति 900 महीने के अंत तक रोजाना 900 टन तक बढ़ाया गया है। लेकिन	
--	--

[illegible]

	<h2 style="text-align: center;">E Tender Notice</h2> <h1 style="text-align: center;">Solapur City Development Corporation Limited</h1>	
<h3 style="text-align: center;">E-Tender Notice No : 03</h3>		
<p>Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) through e-tendering portal for Appointment of Contractor for Stadium Phase-2 in Solapur under Smart City Mission.</p>		
<h4 style="text-align: center;">Name of Work</h4>	<h4 style="text-align: center;">Estimated Cost</h4>	<h4 style="text-align: center;">EMD Amount</h4>
<p>Appointment of Contractor for Develop and maintain the Indra Gandhi Stadium Phase-2 in Solapur under Smart City Mission</p>	<p>Rs. 22,72,53,052/- (Rupees Twenty Two Crore Seventy Two Lakh Fifty Three Thousand Fifty Two only)</p>	<p>Rs. 22,72,531/-</p>
<p>Tender release date is 10:00 am on 29.04.2021 Online Pre Bid meeting is at 04.00 PM of 06.05.2021 thru City Development Corporation Limited, Saat Rasta, Solapur Bid Submission date up to 3:00 PM of 14.05.2021 The Technical Bid Opening date is 4.00 PM of 17.05.2021 The tender can be downloaded from www.mahatenders.com The bidders should quote exclusive of GST All rights of acceptance and rejection of tender is reserved</p>		

ऑक्सीजन पर जोर

धृता बढ़ाने पर ध्यान दे रही मारुति


 ■ ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के परियोजना में मारुति अपना

सुजूकी ने कहा है कि वह जाना जरूरतों के लिए ऑक्सीजन प्रचालन लक्ष्य कराने के प्रयास में अपने अपनी निर्माण इकाइयों को छोड़ेंगे। हुडई ने अपना क्वचर सुधारने के लिए 20 वर्षों के निवेश की घोषणा की है। नी ने कहा है, 'इस निवेश का उद्देश्य अस्थितियों को बन को लेकर सक्षम बनाना भीतर हालात वाले मरीजों की करना है। इसके अलावा, माईएफ ने विभिन्न अस्थितियों पर कार्यक स्टाफ मुहैया कराने, दा देखभाल सुविधाएं स्थापित करने, और जरूरत पड़ने पर परिचालन लागत वहन करने की भी घोषणा की है।'

मारुति सुजूकी उत्पादन के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि उसके आपूर्तिकर्ता (इस्पात निर्माताओं समेत) निर्माण प्रक्रिया के लिए इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भागवत ने कहा, 'हम स्वयं भी ऑक्सीजन के छोटे उपयोगकर्ता हैं, लेकिन हमारे ऐसे आपूर्तिकर्ता ऑक्सीजन के बड़े उपयोगकर्ता हैं जो विभिन्न कलपुर्जा का निर्माण करते हैं।'

पाली प्रमुख कंपनियों के प्रमुखों के साथ शुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रमुख इस्पात कंपनियाँ एलएएमओ की आपूर्ति बढ़ा रही हैं। आर्सेलर मित्तल निर्माण स्टील इंडिया (एएमएनएस इंडिया) और जेएसडब्ल्यू स्टील अपने संयंत्रों के आसपास कोविड अस्पताल और केंद्र स्थापित कर रही हैं ताकि रोगियों आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के 72 घंटों के भीतर एएमएनएस इंडिया ने गुजरात के हजीरा में अपने संयंत्र के समीप 250 बिस्तरों वाला एक कोविड अस्पताल तैयार कर दिया।

[illegible]

 <p>Smart City KARGIL TOWN DEVELOPMENT AUTHORITY</p>		
<p align="center">Date : 28.04.2021</p>		
<p>is invite e-tender from eligible bidders Develop and maintain the Indra Gandhi</p>		
<p>Initial Security Deposit</p> <p align="center">Rs. 45,45,060/-</p>	<p>Completion Period</p> <p align="center">12 Month</p>	<p>Cost of Blank Tender Form</p> <p align="center">Rs. 5,600/- (Rupees Five Thousand Six Hundred only including 12% GST)</p>
<p>ugh Google Meet/Zoom App at Solapur</p>		
<p>ov.in</p>		
<p>by SCDDL. Sd/-</p>		

गैटवे डिस्ट्रिपार्क्स

वीथी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ 4 गुना बढ़ा

दिनांक	समेकित शुद्ध लाभ (इंडेक्स)
Apr 22	172.30
Apr 27	195.70
Apr 28	206.95

▲ 5.7 %

कंपनी ने कहा है, 'खासकर भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में मई 2020 के अंत में कुछ ढील दी गई थी, जिससे हमारे फूड डिलिवरी व्यवसाय में सुधार आना शुरू हुआ और वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में हमने सर्वाधिक जीआर (सकल ऑर्डर वैल्यू) दर्ज की। हमारे व्यवसायों की तेज वृद्धि कोविड-19 महामारी की वह

भारत में एक बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार है और इसमें जोमेटो तथा स्विगी जैसी कंपनियां मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा रेबेल फूड्स और ब्रांडेड फूड सर्विसेज कंपनियां (डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट समेत) भी शामिल हैं। जोमेटो ने अपने ऑर्डरों में 13.2 गुना तक की वृद्धि दर्ज की है।

सफलता सहित महत्वपूर्ण कारकों का आकलन किया गया।

टायम मैगजीन के अनुसार, इन सब कारकों पर गौर करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्य करने वाली कंपनियों की सूची तैयार हुई। इसमें पुनर्क्ररण के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से लेकर भविष्य की मुद्रा को रूप दे रही क्रिप्टोकॉर्सी कंपनी से लेकर टीका बनाने वाली दवा कंपनियों का शामिल किया गया है। सूची में जियो प्लेटफॉर्म की नवप्रवर्तकों की सूची में रखा गया है। इसी श्रेणी में जूम, एडोब्स, टिकटक, आईकिया, मांडाओ और नेलस्कि

सबसे कम ले रही है। उसने कहा, दुनिया भर के निवेशक रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए तैयार हैं। वे रिलायंस जियो के 41 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन निवेशकों में पेशावर, गूगल जैसी कंपनियां शामिल हैं।

सूची में एडुटेक स्टार्टअप बैजूस को टेसला, हुआवेई आदि कंपनियों के साथ रखा गया है। कंपनी का मूल्यांकन जुलाई 2019 में 5.5 अरब डॉलर था जो अब बढ़कर करीब 15 अरब डॉलर हो चुका है।

वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में तेजी के बीच जनवरी से मार्च तिमाही में बैकिंग के प्रमुख स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उत्पादों की जबरदस्त डिमांड होने से अपने सभी प्रमुख बाजारों में दो अकों में वृद्धि दर्ज की है लेकिन भारत बाजार सबसे दमदार बनकर उभरा है। कंपनी के स्वच्छता पोर्टफोलियो ने दो अकों की वृद्धि की है लेकिन उसका कारोबार खासतौर पर भारत, उत्तरी अमेरिका और दमदार है। कंपनी के स्वच्छता पोर्टफोलियो में लाइजॉर्ल, एयर विक और मकेयर उत्पाद शामिल हैं।

[illegible][illegible]